





SKPM/SEC.DEPT/2024-25 MAY 31, 2024

To, **BSE** Limited Corporate Relationship Deptt. 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

Dear Sir/Ma'am

Scrip Code:500388

Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulation 2015

Subject: Newspaper Advertisement of Financial Results under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed below, the newspaper clippings of Audited Financial Results for the quarter and Year ending March 31st, 2024, published in:

- 1. Business Standard- English language national daily newspaper.
- 2. Business Standard Hindi Edition.

This is for your information and record.

Thanking You,

For Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd.

Ritika Priyam Company Secretary & Compliance Officer Mem No: A53502

Encl: As above



REGD. OFFICE : 4830/24, Prahlad Street, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 Ph.: 91-11-46263200, 23261728, 23267253 E-mail: info@skpmil.com SPL-A, 29.558 Acres, 31.69 Acres, 29.982 Acres & SPL-A/1-31232 Sq Mtr.,

WORKS

Ph.: 7229860222, 7229860333 E-mail: keshwana@skpmil.com

CIN No.: L21012DL1972PLC279773 www.facebook.com/shreekrishnapaper

SPL-A, Keshwana Rajput, Tehsil Kotputli, RIICO Industrial Area, Jaipur, Rajasthan-303108

FY24 FDI equity inflow at 5-year low of \$44 bn

High interest rates in advanced economies among likely reasons, say experts

SHREYA NANDI New Delhi, 30 May

oreign direct equity investments → fell to a five-year low in the financial year ended March 31, 2024 (FY24) to \$44.42 billion due to external factors such as high interest rates in advanced economies, and a limited absorptive capacity in various sectors in India.

Inflows contracted 3.5 per cent yearon-year (Y-o-Y) in FY24, data released by the Department for Promotion Industry and Internal Trade (DPIIT) showed.

Foreign investment, including FDI equity inflows, is needed to supplement domestic resources and finance the current account deficit. FDI inflows are a good indicator of a nation's appeal as a long-term investment destination.

The fall in FDI equity inflows can be attributed to two reasons - globally, investible funds have fallen and interest rates have hardened. Several sectors, including IT (information technology) and startups are seeing saturation of investment," said Madan Sabnavis, chief economist. Bank of Baroda.

Total FDI, which includes equity capital of unincorporated bodies, reinvested **DOWNWARD PRESSURE**

Year	FDI equity inflow (in \$ bn)	% chang Y-o-Y	e
FY20	49.9	13	TITLE WAR
FY21	59.6	19	a limit
FY22	58.7	-1	The same of the sa
FY23	46.0	-22	STITE BE
FY24	44.4	-3	THE - WAY
Source: D	PIIT		

earnings, and other capital, contracted 1 per cent Y-o-Y to \$70.95 billion during FY24. Last year, the total FDI inflows stood at \$71.35 billion.

Singapore continued to be the top investor with \$11.77 billion FDI during FY24. It was followed by Mauritius (\$7.97 billion), the United States (\$4.99 billion), Netherlands (\$4.92 billion), Japan (\$3.18 billion), the United Kingdom (\$1.21 billion), the United Arab Emirates (\$2.92 billion), Cyprus (\$806 million), Germany (\$505 million), and Cayman Islands

Computer software and hardware was the highest recipient of FDI at \$7.97 billion, down 15.1 per cent Y-o-Y. It was followed by the services sector at \$6.64

billion, down 24 per cent. Services includes financials, banking, insurance, research & development, courier, among other sectors. Trading came next garnering \$3.86 billion, contracting by almost a fifth, while investment inflows in the automobile industry stood at \$1.52billion in FY24 compared to \$1.9 billion

Maharashtra continued to be the most favoured destination of investors, receiving \$15.11 billion worth of investments, although inflows declined 2 per cent.

This was followed by Karnataka with \$6.57 billion in FY23 from \$10.42 billion a year ago. In the case of Delhi, FDI inflows declined to \$6.52 billion from \$7.53 billion a year ago.

5th-gen fighter looks to move off the drawing board, into the air

HAL/Bengaluru, 30 May

The US has its F-22 Raptor, and F-35 Lightning II; Russia has its Sukhoi-57; China has its J-20 Chengdu, and J-31 Shenyang - all of them 5th-generation (Gen-5) combat aircraft built to rule the skies.

The Indian Air Force (IAF) isn't ready to be left behind. With the experience gained from building the Tejas light combat aircraft (LCA), New Delhi is pushing its aircraft production monopoly, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), to join hands with the Defence Research & Development Organisation's (DRDO)'s Aeronautical Development Agency (ADA) to build an Indian Gen-5 fighter, dubbed the Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

Business Standard was granted an exclusive briefing at HAL Bengaluru on the progress of the AMCA project.

'The [AMCA] project has just begun and it is coming along well. We are building in close cooperation with ADA. About 35-40 per cent of the aircraft has been allocated to HAL to design. The rest of the aircraft is being designed by ADA. There is no third design partner," said CB Ananthakrishnan, HAL's chairman and managing director (CMD).

The Ministry of Defence (MoD) is keen bringing in private industry immediately at the design and development stage. However, private firms would like to participate in production programmes only after completing design and development to avoid locking in funds during an inevitably long gestation period.

The AMCA's Comprehensive Design Review (CDR) was completed in December 2023. HAL will now have to develop some systems and build five prototypes – a four-year-long job.

HAL officials briefed Business Standard that the AMCA's stealth shaping was now complete, its design now mature, and its internal systems

cutting - the symbolic start of constructing a flying prototype.

IEJAS

PART-IV

Stealth is health

Stealth fighters are crucial at the start of a war. Being almost invisible to a radar, they fly deep into enemy airspace on "interdiction" missions to strike enemy radars, air bases, and control centres. The "air superiority" thus created allows non-stealthy fighters like Sukhoi-30MKI, Jaguars, and

EIU: India GDP growth

Economist Intelligence Unit's (EIU) Global

Outlook report has forecast India to be the

fastest growing major economy in 2024-2028,

ic heft expands, there would be a crossover in

the mid-2040s with Brics nations taking over

growth for 2024 to 2.5 per cent compared to 2.4

per cent previously. "...growth will be

unchanged rather than slowing from 2023.

Growth is proving surprisingly resilient in the

face of high interest rates and geopolitical risks," the EIU global outlook report said.

the global economy to grow by 2.8 per

cent, with more fragmentation and regionali-

sation in the world economy dragging the

Over the next five years, EIU has projected

The report suggested that as India's econom-

The EIU has revised its forecast for real GDP

with its growth expected to outpace China's.

likely to outpace China's in 2024-28

the G7 in terms of nominal GDP.

growth potential.



The Ministry of Defence is keen on bringing in private industry at the design & development stage. But, private firms want to come in later

Mirage 2000s to penetrate enemy airspace and strike enemy targets such as roads, railways, airfields, depots, and ground forces without incurring heavy casualties.

In the event of a war with China, AMCA deep strikes would target China's rail and road links with Tibet, isolating the People's Liberation Army (PLA) divisions there.

Four advanced capabilities make Gen-5 fighters so lethal: Their "stealth", or nearinvisibility to enemy radars, is magnified by an ability to "supercruise", or fly at supersonic without engaging the engines' itel-guzzling afterhurners advanced avionics enhance the pilot-aircraft interface, allowing a single pilot to both fly and fight the aircraft. Fourth, its powerful radar can detect and engage targets from far — outranging its adversaries.

> In stealth mode, the AMCA conceals its fuel and weapons in an internal bay, since carrying them under-wing creates protrusions that reflect radar and compromise stealth. In stealth mode, the AMCA's "all-up-weight" (AUP) of 20 tonnes allows it to carry a mere one-and-a-half tonnes of munitions, concealed in internal weapon bays. In non-stealth

fully laid out. The way is clear for metal mode, an additional five tonnes of munitions and fuel payload can be carried on external, under-wing stations.

However, given the AMCA's strategic value and cost, its primary task would probably be stealth missions, using armament carried on four weapons stations in internal bays. On deep penetration strikes, the AMCA would carry up to 6.5 tonnes of fuel in internal tanks. That is sufficient to strike targets 1,000 kilometres inside enemy territory, and return to base.

In "non-stealth" mode, with its weapons on six external stations, internal fuel tanks can carry an additional 1,200-1,300 litres of fuel, increasing its capability as a potent long-range, non-stealthy

Engines for super-cruising

Another key AMCA design challenge is to develop an indigenous, "super-cruising" engine. Until then, the AMCA will be powered by twin General Electric (GE) F-414 engines. These engines, in single-engine configuration, will power the Tejas Mark 2.

DRDO officials say: "The F-414 engine generates up to 98 KiloNewtons (KN) thrust, which effectively degrades to 90 KN in Indian climatic conditions. We have calculated that an AMCA, with the configuration the IAF has specified, requires a thrust of 220 KN (in Indian conditions) for super-cruising. That means it requires twin engines, each generating 110 KN thrust."

Former Defence Minister Manohar Parrikar had estimated the AMCA would cost about \$4 billion to develop, with a major share going into developing the engine. In 2015, India set up a "joint working group" (JWG) with America to codevelop jet engine technology. In October 2019, US Under Secretary of Defence Ellen Lord, on a visit to Delhi, revealed the JWG laws prevented the export to India of key technologies that the DRDO wanted.

With almost a decade of work and ₹400 crore gone into the AMCA, responsibilities are now being reassigned. The serial production of the AMCA was handed over to HAL's Nashik Division, which has, for the last two decades, been engaged in manufacturing the Sukhoi-30MKI.

Ananthakrishnan says there now a proposal to form a special purpose vehicle (SPV), with a private sector partner. ADA and HAL will take a 50 per cent stake, with the private partner holding the rest. "However, we have vet to find a suitable private partner," he said.

HAL will do the complete structural design of the AMCA, except for the centre fuselage, which ADA will design.

"There is no clarity on how these private companies could be chosen. For the time being, the Cabinet Committee on Security (CCS) paper says to go ahead with 50 per cent ownership each with ADA and HAL. When the private sector firms are ready to join, they can be invited," said the HAL chief.

Series concludes

Power demand hits record 250 Gw, coal, gas driving bulk of supply

Power demand touched a record high of 250 Gigawatt (Gw) on Thursday. The peak demand was witnessed during the afternoon. The Northern region also achieved a record demand met, reaching an all-time high of 86.7 Gw, while the Western region also touched its maximum demand met of 74.8 Gw. Thermal power plants continued to be the backbone of the nation's energy mix, the power ministry said.

"All-India thermal generation hit an all-time high, achieving a peak of 176 Gw (ex-bus), especially during non-solar hours. A key contributor in this has been strategic implementation of Section-11, which facilitated the maximisation of generation from imported coal-based plants, as well as gas-based plants," the statement said.

6 UBI officials booked over fund diversion

A case has been registered against six officials of the Union Bank of India for allegedly fraudulently diverting around ₹94.73 crore of the Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribe Development Corporation Ltd to various other bank accounts, police said on Thursday. The action came after an official of the corporation died by suicide on Sunday, leaving behind a note in which he named the Managing Director J G Padmanabh, Accounts Officer Parashuram G Durugannavar, and Union Bank of India Chief Manager Suchismita Rawal.



Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited

CIN: L21012DL1972PLC279773 Regd. Office: 4830/24, Prahlad Street, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi - 110 002

Website: www.skpmil.com E-mail: info@skpmil.com Tel: 91-11-46263200

	Extract of Audited Financial Results for the Qua	rter and Yea	r Ended Maı	ch 31, 2024	(₹ in Lakhs)
SI. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	3,545.05	14,543.57	4,431.83	17,817.45
2	Net Profit/(Loss) for the period				
	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(52.27)	65.36	122.31	325.96
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax				
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(52.27)	64.38	162.89	1,658.35
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax				
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(22.96)	38.04	71.86	1,256.22
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss)				
	for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(14.65)	38.20	69.17	1,257.09
6	Equity Share Capital (Face value of ₹10/- each)	1,352.17	1,352.17	1,352.17	1,352.17
7	Other equity (Reserves excluding Revaluation Reserve) as shown	1917	.62	187	9.42
	in the Audited Balance Sheet of the previous year	(As at 31.0	03.2024)	(As at 3°	.03.2023)
8	Earnings per equity share (face value of ₹10/- each) (not annualised)				
	(a) Basic (in ₹)	(0.17)	0.28	0.53	9.29
	(b) Diluted (in ₹)	(0.17)	0.28	0.53	9.29

- These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2024 is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.skpmil.com

For and on behalf of the Board of Directors of Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited

> Narendra Kumar Pasari Managing Director DIN - 00101426

BAG

Place : New Delhi

Date: May 30, 2024

B.A.G. Films and Media Limited

CIN: L74899DL1993PLC051841

Regd Office: 352, Aggarwal Plaza, Plot No. 8, Kondli, New Delhi-110096 Corp Office: FC-23, Sector-16A, Film City, Noida (UP)-201301

Tel: 91 120 460 2424, Fax No. 91 120 3911 401; Website: www.bagnetwork24.in, e-mail: info@bagnetwork.in

Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2024

			Standalone			Consolidated				
Particulars	Quarter Ended			Year	Ended	C	Quarter Ende	d	Year E	nded
Faiticulais	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income from operation (net)	1,042.74	798.40	1,015.39	3,595.08	3,531.71	4,035.34	2,318.70	3,721.02	13,186.44	11,171.12
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	88.34	20.24	(7.60)	151.52	11.77	(59.06)	(83.48)	382.89	842.14	(126.28)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	88.34	20.24	(7.60)	151.52	11.77	(59.06)	(83.48)	382.89	842.14	(126.28)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	85.42	5.67	(15.37)	104.81	(27.38)	(48.95)	(100.65)	383.69	677.12	(149.11)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	81.20	5.67	(25.66)	100.59	(37.67)	(67.67)	(100.65)	355.05	658.40	(177.75)
Equity Share Capital	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66
Earnings Per Share (of ₹2/- each) (for continuing and discontinued operations) -										
Basic:	0.04	0.00	(0.01)	0.05	(0.02)	(0.03)	(0.05)	0.18	0.33	(0.09)
Diluted:	0.04	0.00	(0.01)	0.05	(0.02)	(0.03)	(0.05)	0.15	0.28	(0.09)
Notes:										

- 1. The above Audited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee. These results have been approved by the Board of Directors at their meeting held on
- 2. The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and year ended on March 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Audited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2024 are available to investors on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the Company's website www.bagnetwork24.in
- Previous quarter/ year's figures have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary.

For B.A.G. Films and Media Limited

Place: Noida Date: May 29, 2024





Anuradha Prasad Shukla **Chairperson and Managing Directo** DIN : 00010716



RAMA PHOSPHATES LIMITED

Regd. Office: 51/52, Free Press House, Nariman Point, Mumbai-400 021

Tel.No.: 022-2283 3355/6154 5100; Fax: 022-22049946; Email: compliance@ramaphosphates.com; Website: www.ramaphosphates.com; Corporate Identification No.: L24110MH1984PLC033917

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

					(₹ in Lakh)
Particulars	(Quarter Ended	d	Year E	Ended
	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Total Income from operations (net)	18,671.02	11,622.61	24,266.71	60,417.73	87,548.39
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra ordinary items)	(490.10)	(3,752.10)	438.79	(4,121.06)	5,485.99
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items)	(490.10)	(3,752.10)	438.79	(4,121.06)	5,485.99
Net Profit / (Loss) for the period after Tax, Exceptional and/or Extra ordinary items	(232.52)	(2,974.41)	356.02	(3,106.71)	4,093.44
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	7,434.92	(2,973.05)	368.15	4,558.29	4,077.67
Equity Share Capital	1,767.43	1,767.43	1,767.43	1,767.43	1,767.43
Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year	25,845.48	29,133.06	29,133.06	25,845.48	29,133.06
	(As on 31.03.2024)	(As on 31.12.2023)	(As on 31.03.2023)	(As on 31.03.2024)	(As on 31.3.2023)
Earning Per Share (before extraordinary items) of ₹ 10/- each Basic - ₹ Diluted - ₹	(1.31) (1.31)	(16.81) (16.81)	2.01 2.01	(17.56) (17.56)	23.14 23.14
Earning Per Share (after extraordinary items) of ₹ 10/- each Basic - ₹ Diluted - ₹	(1.31) (1.31)	(16.81) (16.81)	2.01 2.01	(17.56) (17.56)	23.14 23.14

Place: Mumbai

Date : 30th May, 2024

- 1) The above audited results for the quarter ended March 31, 2024 and the audited results for the year ended March 31, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on
- 2) The above results are prepared in compliance with Indian Accounting Standard (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and notified by the Ministry of Corporate Affairs under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 & amendments issued thereafter and other accounting principles generally accepted in India.
- 3) Figures of the previous quarter/period have been regrouped/rearranged, where ever necessary to make them

By order of the Board For Rama Phosphates Ltd.

H. D. Ramsinghani **Chairman & Managing Director** DIN: 00035416

BS REPORTER





बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड निगमित कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी2 बिल्डिंग, पंचम तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र-411014 शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 14वां तल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली – 110034, प्राधिकृत अधिकारी का विवरण : नाम : प्रदीप कुमार, ईमेल आईडी : pardeep.kumarl@bajajfinserv.in,

रतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता∕सह-उधारकर्ता ने यहां नीचे वर्णित अवल संपत्ति को बजाज हाउसिंग फाइनें लिमिटेड ('बीएचएफएल') के पास गिरवी रख दिया है और उक्त अचल संपत्ति (प्रतिमृत परिसंपत्ति∕संपत्ति) का अधिग्रहण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफॉएरि

अधिनियम 2002 और उसके नियमों के अनुसार कर लिया गया है। प्रतिभूत परिसंपत्ति को बीएचएफएल को देप ऋण बकाया, लागू व्याज शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए बोली लगाकर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया है। प्रतिमृत परिसंपत्ति को 05—जुलाई—2024 को बेचा जा रहा है और बोलीदान प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में संदर्गित) के नियम संख्या 8 व 9 के अंतर्गत तथा यहां

नीचे विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों पर **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "बिना संसाधन आधार"** पर आयोजित किया जायेगा

Notice is hereby given Mr. Anoop Vijaykumar with registered office at X-198 Regency Park-II, DLF Phase 4 Sector - 27, Galleria, Gurgaon, Harvana - 122002, registered with SEBI under SEBI (Investment Advisers) Regulations, 2013 as an Individual Investment Adviser vide INA100009293 is surrendering his Investment Advisor license to SEBI. In view of the same, any aggrieved party may make any representation against the surrender before SEBI at scores.sebi.gov.in or smartodr.in

कार्यालय पता में बदलाव हेतु सूचना गृहम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड CIN: U65922PN2004PLC208751

जीकत कार्यालयः 602. छठवीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, सर्वे नं, 79/1, घोरपडी, मंढवा रो गुणे-411036, महाराष्ट्र, **वेबसाइटः www.grihmuhousing.com टेलीः** 020 6780809 हमारे सभी ग्राहकों, पॉलिसी धारकों तथा जन साधारण को एतदुद्वारा बड़े पैमाने पर सूचना र्द जाती है कि **लक्ष्मी नगर (दिल्ली)** स्थित शाखा को यहां नीचे उल्लेखित इसके वर्तमान पते से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। किसी भी तरह के पत्राचार के लिए वर्तमान पता इस सुचना की नारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा।

कार्यालय का पुराना पता	कार्यालय का नया पता
यूनिट नं. 911, नौवीं मंजिल, रूट्स टावर	यूनिट नं. 607 एवं 608, छठवीं मंजिल,
प्लॉट नं. 7, लक्ष्मी नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,	सागर प्लाजा, प्लॉट नं. 19, डिस्ट्रिक्ट
निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के निकट,	सेंटर, लक्ष्मी नगर-दिल्ली-110092
नई दिल्ली-110092	

किसी भी व्यक्ति के पास इस शाखा के संबंध में अगर कोई भी प्रश्न अथवा अनसुलझी समस्या ह तो वे ऊपर उल्लेखित **नए पते** पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा आप हमसे +91-1800-266-3204 (टोल फ्री) अथवा ईमेलः customercare@grihumhousing.com पर सम्पर्क करें



विपुल लिमिटेड

GRIHUM

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट सं. 201, सी-50, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

कॉरपोरेट कार्यालयः विपुल टेकस्क्वायर, गॉल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009 CIN No.: L65923DL2002PLC167607, दुरभाष सं.: 0124-4065500 वेबसाइट: www.vipulgroup.in

			0 0 0 0	,	में प्रति शेयर अर्जन	_
क. सं.	विवरण	31.03.2024	गप्त तिमाही के लिए 31.12.2023	31.03.2023	समाप्त वर 31.03.2024	कालए 31.03.202
н.		े तेखा परीक्षित	उ । . 12 . 2023 अलेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
4			14.791.60	1.060.62	40,172,53	4.696.04
1	परिचालनों से कुल आय	23,791.22	14,791.60	1,060,62	40,172.53	4,696,04
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट	00 040 04	0.047.75	(0.504.00)	00 004 45	(10.015.51
_	तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	23,040.01	8,247.75	(6,561.86)	29,201.45	(10,015.51
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	00 040 04	0.047.75	(0.504.00)	00 004 45	(10 170 00
	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	23,040.01	8,247.75	(6,561.86)	29,201.45	(19,478.66
4	करोपरांत अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	00 440 05	0.400.40	(0.504.00)	0474077	(40.470.00
_	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	20,412,65	6,422.43	(6,591.86)	24,743.77	(19,478.66
5	इक्विटी शेयर पूँजी	1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199.84
6	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय (अवधि (करोपरांत)					
	तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत) के लिए लाभ/	00 400 04	0.400.40	(0.504.00)	04.775.45	/40 440 46
_	(हानि) सम्मिलित)	20,439.34	6,422.43	(6,561.69)	24,775.45	(19,448.49
7	प्रति शेयर अर्जन (रु. 1/- प्रत्येक)					
	(जारी एवं बंद परिचालन के लिए) – बेसिक	17.01	5.05	(5.40)	00.00	(10.00)
	- बासक - डाइलटेड	17.01	5,35 5.35	(5.49) (5.49)	20,63 20,63	(16.23) (16.23)
_						
- (31 मार्च, 2024 को समाप्त चतुर्थ तिमाइ			खा पराक्षित		
1	परिचालनो से कुल आय	24,969.49	17,067.57	1,177.86	43,837.65	8,482,59
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट					
	तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	23,198.72	8,142.94	(761,77)	28,992,95	(1,474.55)
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)			, ,		' '
	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	22,924.40	8,142.94	(791.77)	28,718.64	(10,937.70
4	करोपरांत अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)			, ,		`
	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	20,271.86	6,317.62	(692,49)	23,350.04	(11,733.80
5	इक्विटी शेयर पूँजी	1,199,84	1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199,84
6	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय (अवधि					
	(करोपरांत) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत)					
	के लिए लाभ/(हानि) सम्मिलित)	20,297.31	6,317,62	(662,89)	23,375.49	(11,704.20
7	प्रति शेयर अर्जन (रु. 1/- प्रत्येक)					'
	(जारी एवं बंद परिचालन के लिए)					
	- बेसिक	16,90	5,27	(0.58)	19.46	(9.78)
	- डाइलूटेड	16,90	5.27	(0.58)	19.46	(9.78)

बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास दायर 31 मार्च, 2024 को समाप्त चतुर्थ तिमाही तथा वर्ष (एकल तथा समेकित के लिए विस्तृत वित्तीय परिणामों का सारांश है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त चतुर्थ तिमाही एवं वर्ष के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.vipulgroup.in पर उपलब्ध है। लेखा परीक्षक कमिटी द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त चतुर्थ तिमाही तथा वर्ष के लिए ऊपर उल्लेखित लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित)

की समीक्षा की गई है एवं उनकी सिफारिशों पर 30 मई, 2024 को संचार के ऑडियो विजूअल साधनों के जरिए आयोजित निदेशक मंडल द्वारा अपनी संबद बैठक में उसे अनमोदित किया गया है। उपरोक्त परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 133 के अधीन निर्धारित आईएनडी एएस में उल्लेखित अनुमोदित तथा परिमापन सिद्धांतों के साथ पठित उसके अधीन जारी प्रासंगिक नियमों तथा भारत में साधारण तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

संबंधित परिणाम कंपनी की वेबसाइट यानी www.vipulgroup.in तथा बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से विपुल लिमिटेड

प्रबंधक निदेशक, सीईओ एवं सीएफओ

पनीत बेरीवाल

तारीख : 30 मई. 2024

ऋण वसली अधिकरण—।, दिल्ली चतर्थ तल. जीवन तारा भवन. संसद मार्ग. नई दिल्ली-11000 OA 1013/2022

वडीएफसी बैंक आवेदक विरुद्ध मैसर्स एपीडी फैशन प्राइवेट लिमिटेड प्रतिवादी प्रति, (1) मैसर्स एपीडी फैशन प्राइवेट लिमिटेड, 7022/1 एमपीएल नं. 483 मेन रोड माता राजेश्वरी नेहरू नग डस्ट बिन के पास नई दिल्ली 110005 उत्तर पश्चिम, दिल्ली । **(२) श्री संजय कक**ड़, बी–606, प्लॉट नं–8 कात्यायनी अपार्टमेंट सेक्टर 6 द्वारका नई दिल्ली 110075, **(3) श्री सर्केश कुमार**, फ्लैट नंबर 39–ए, डीडीए क्लैटस सेक्टर-10. द्वारका नई दिल्ली 110075

र्म्युक नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध **रु. 7,78,80,229.25 (रुपये सात करोड़ अट्ठहत्तर लाख अस्सी** हजार **दो सी उनतीस तथा पन्धीस पैसे मात्र)** की वस्त्री के लिये एक वाद वर्ज किया है और जबकि यह अधिकरण की संतुष्टि के लिए दिखा दिया गया है कि आपको सामान्य तरीके से सूचना भेजना संभव नहीं है इसीलिये, यह सूचना विज्ञापन द्वारा प्रसारित की जा रही है जिसमें आपके श्वरातिष्य, यह जूपना गश्चाम श्वरात प्रतारिष्य जा रहा है। हो हो जानका 18.08.2024 को प्रातः 10:30 **को एलडी रिजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की वेबसाइट www.etribunal.gov.in देखें। फोन नंबर 011–23748473, कृपया ध्यान दें कि इस अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त दिवस पर आपके उपस्थित न होने की हा हुआ नवन हुए कि साम के इस आवश्य न के प्रोध्य कर्युक्त स्वर्ध में निर्णय ले लिया जायेगा। अनवरत् बनी हुयी महामारी की स्थिति के कारण, सभी प्रकरणों को वीडियो कॉन्फ्रॉसिंग के माध्यम से उठाय

जायेगा और इस उदेश्य के लिये :- (i) सभी अधिवनताओं / वादियों को 'सिस्को वेबएक्स' एप्लिकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा. (ii) रिजस्ट्रार / रिकवरी ऑफिसर- । / और रिकवरी ऑफिसर- ।। द्वारा लिये जाने वाले प्रकरणों की सुनवाई की आगामी तिथि के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" सार्वजनिक सूचना शीर्षक के अंतर्गत डीआरटी **आधिकारिक पोर्टल अर्थात् "drt.gov.in"** पर अगली तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होंगे। (iii) किसी भी आपात रिथति में, **अधिवस्तागण /वादीगण** संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं। आज 04 मई 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा अधिकरण की मुदा के अंतर्गत निर्गत। आगे की पूछताङ के लिए प्रतिवादी नीचे दिये गये फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एलडी रजिस्टार , डीआरटी—। फोन नं: 011—23748473 ईमेल : drt1delhi-dfs@nic.in

इस अधिकरण के सहायक रजिस्टार के आदेशानुसार

आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड आनंद राठी एक्सप्रेस जोन. ए विंग. आठवीं मंजिल. वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. गोरेगाँव (ई), मुम्बई 400 063 भारत मैसर्स एस एच ए इंटरप्राइजेज संदर्भ सं : एपीपीएल00005358

चृंकि, आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तिय के पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम 54 ऑफ 2002) के अधीन तथ प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों वे प्रयोग के तहते प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2003 की धारा 13 की उप-धारा 2 के अधीन मांग सूचना (विवरण नीचे सारणी में विशेष रूप से उल्लेखित है, जिसे बाद में मांग सूचना कहा गया है) जारी किया गया था, जिसमें कर्जदार (विवरण नीचे सारणी में विशेष **रूप से उल्लेखित है, जिसे बाद में कर्जदार कहा गया है)** को मांग सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर मांग सुचना में उल्लेखित रकम के साथ उस पर ब्याज की अनुबंधकीय दर पर आगे एवं भविष्य वे ब्याज की रकम के साथ एआरजीएफएल द्वारा मांग सूचना की तारीख से भुगतान की तारीख तथा/अथव वसूली की तारीख तक लागत एवं शुल्क तथा अन्य भुगतेय रकम (यदि कोई हो) **(जिसे यहां बाद में बकाया रक** कहा गया है) चुकता करने को कहा गया है।

कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों द्वारा संबंधित रकम का भगतान करने में असफल होने के कारण एतदद्वा विशेष रूप से यहां नीचे उल्लेखित कर्जदार एवं जन साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 13 की उप घारा (4) ь साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहन अधोहस्ताक्षरी द्वारा यहां नीचे विशेष रूप से उल्लेखित तारीख को निम्नलिखित उल्लेखित सम्पत्ति/प्रत्याभ आस्तियों (जैसा की मांग सूचना के अंतर्गत उल्लेख किया गया है) पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है। विशेष तौर पर कर्जदार तथा सह-कर्जदार तथा आम तौर पर जन साधारण को एतददारा सतर्क किया जात है कि इस संपत्ति/प्रत्याभृत आस्तियों से संबंधित कोई भी सौदा न करें तथा इस संपत्ति/प्रत्याभूत आस्तियों र संबंधित कोई भी सौदा **बकाया रकम** (यहां नीचे विशेष रूप से उल्लेखित है) के साथ उस पर ब्याज की अनुबंधकीय दर पर आगे एवं भविष्य के ब्याज की रकम के साथ एआरजीएफएल द्वारा भुगतान की तारीख जारा/अथवा वसूली की तारीख तक लागत एवं शुल्क तथा अन्य मुगतेय रकम (यदि कोई हो) के लिए आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के पलब्द समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओ आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार (ॉ) का नाम एवं पताः 1) मैसर्स एस एच ए इंटरप्राइजेज (कर्जदार), प्लॉट नं. 1, राजेन्द्र नगर

सह-कर्जदार (ौ) का नाम एवं पताः (1) मैसर्स शशी शर्मा (सह-कर्जदार), 5/15सी, दूसरी मंजिल धनपत राय कॉलोनी शाहिबाबाद, गाजियाबाद, उप्र-201005, 2) श्री सधीर शर्मा (सह-कर्जदार), 5/15सी दूसरी मंजिल, धनपत राय कॉलोनी शाहिबाबाद, गाजियाबाद, उप्र-201005, **3) श्री अश्विनी कुमार शर्मा** (**सह-कर्जदार),** 5/15सी, दूसरी मंजिल, धनपत राय कॉलोनी शाहिबाबाद, गाजियाबाद, उप्र-201005

माग सूचना के अनुसार बकाया रकम साथ में लागू आग	आरऑआइ	13.00%
के ब्याजः रु. 69,13,382/- (रुपये उनहत्तर लाख तेरह	बकाया मूलधन	6,558,430
हजार तीन सौ बयासी मात्र)	लंबित ईएमआई रकम	299,075
मांग सूचना की तारीखः 14 मार्च, 2024	खंडित अवधि का ब्याज	11,842
ऋण अनुबंध सं.ः एपीपीएल00005358	वैधानिक शुल्क	7,600
कब्जा की तारीखः 30 मई, 2024	अतिशोध्य ब्याज	25,815
	ईएमआई बाउंस	10,620
	कुल बकाया	69,13,382
0 0	U \ 0	100

प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरणः सम्पत्ति का पताः धनपत राय कॉलोनी, ग्राम पसुंडा परगना लोनी गाजिय तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 में स्थित खसरा नं, 1814 एवं 1815 में से, प्लॉट . 5/15सी एवं 5/15डी का सम्पूर्ण भूतल एवं दूसरी मंजिल साथ में छत का अधिकार, **पूर्वः**- प्लॉट र 5/15बी, **पश्चिमः**- प्लॉट नं. 5/15ई, **उत्तरः**- 10.5 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिणः-** अन्य की भूमि। हस्ता/- आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड दिनांकः 30 मई, 2024

> खबरें . जो बढ़ाए आपकी तरक्की की रफ़्तार SMS reachbs to 57575 or

गाजियाबाद उत्तर प्रदेश—201102 राजा की कोठी के पास, अमरहेडी (80) से अप. 450 बज (अहर्शाट) ज बादा **१) अवंत समात का** से किस्तरण संपत्ति का वह पूरा हिस्सा पति नंतर एसएफ-2 दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर एफ-24 एसएलएफ वेद विहार, गाजियाबाद उत्तर क्याए (पच्चीस हजार रुपए मात्र) प्रदेश —201102, पूर्व: लॉट नंबर एफ-33, परिवम: रोड 9.00 मीटर और ऐसे गुणकों में।

ऋण खाता विवरण / उधारकर्ता (ऑ) एवं गारंटर(रॉ) के नाम एवं पते

जींट हरियाणा—126102 -प्तताईस लाख सत्ताईस हजार पांच सौ चार रुपये मात्र) 23/05/2024 से अर्जित भविष्य के ब्याज और शुल्क के साथ

प्लॉट नंबर एफ 24 फ्लैट नंबर एसएफ—02, द्वितीय तल वेद विहार लोनी देहात,

लैन:- H401HHL0945548 और

H401HLT0952309

ı. सुनील शर्मा (उधारकती)

B FINSERV

 ई—नीलाभी की तिथि एवं समय
 इषराज जमा की अंतिम तिथि
 संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय
 संपत्ति विवरण आरक्षित मूल्य संपत्ति की धराज बोली वृद्धि 1) ई-नीलामी तिथि :- 5-जुलाई-2024 मध्या. ११:०० से दोप. आरक्षित मूल्य : रु. १९,००,००० / | 1) इन्नितामा तिष्य :- 5-जुलाइ-2024 मध्या 1:100 स वाप | आरक्षित मृत्य : रु. 19,00,000 /— 12:00 वर्ज के मध्य 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथा | १० पये उन्नीस लाख मात्र) | 2) केवाईसी के साथ इंएमडी जमा करने की अतिम तिष्य : 4-जुलाई-2024 को साथ 5:00 वर्ज (आईएसटी) तक, 3) निर्णक्षण की तिष्य :- 03-जुन-2024 से 3-जुलाई-2024 को मध्या 1:100 से अप. 4:00 वर्ज (आईएसटी) के बीच। 4) अचल संपत्ति का अप. 4:00 वर्ज (आईएसटी) के बीच। 4) अचल संपत्ति का अप. 4:00 वर्ज (आईएसटी) के बीच। 4) अचल संपत्ति का

हरस्ता./- (प्रदीप कुमार) प्राधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेः

दिनांक : 31/05/2024, स्थान : दिल्ली/एनसीआर

सार्वजनिक नीलामी के नियम और शर्ते इस प्रकार हैं:

सार्वजनिक नीलामी 'जैसी है जाहां है, जैसी है जो है और बिना किसी संसाधन आधार' पर आयोजित की जा रही है और इसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के ऋणमारों के साथ बेचा जा रहा है।

प्रतिभूत परिसंपत्ति आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी - नीलामी बिकी ई—नीलामी पोटेल के माध्यम से ऑनलाइन होगी।

ई—नीलामी, पोटेल https://bankauctions.in के माध्यम से 5/जुलाई/2024 को 11:00 से 12:00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तार के साथ होगी।

विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया कंपनी के वेबसाइट यूआरएल https://www.bajajhousingfinance.in/auction-notices देखें य किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

चौडी, उत्तरः प्लॉट नंबर एफ-25, दक्षिणः प्लॉट नंबर एफ-23

ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड

CIN No: L74899DL1984PLC018268

पंजीकृत ऑफिस : एससीओ 98ए, दूसरा तल, नरेंद्र ऐस्टट, तैमूर नगर, नई दिल्ली –110065 दूरभाष : 011-41064256, फैक्स सं: 011-26322664, ई-मेल : cs@oswaloverseasltd.com, वेबसाइट : www.oswaloverseasltd.com

	31 माच, 2024 का समाप्त वर्ष आर तिमाहा के लि	ए स्टडअलान	लखापराक्षित ।	वत्ताय पारणाम		
					(रु. लाखों में)
क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त तिमाही	31.03.2023 को समाप्त तिमाही	31.12.2023 को समाप्त तिमाही	31.03.2024 को समाप्त वार्षिक	31.03.2023 को समाप्त वार्षिक
		(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय (निवल)	3778.95	6849.44	6215.81	15208.29	21016.27
2.	कर पश्चात साधारण गतिविधियों से निवल लाम/(हानि) (असाधारण मदों से पूर्व)	112.35	1475.06	294.06	-510.59	579.52
3.	अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) कर पश्चात (असाधारण मदों के पश्चात)	342.45	972.10	259.81	-544.84	74.53
4.	अन्य समेकित आय	0.30	0.13	0.78	3.05	2.32
5.	निवल लाभ/हानि	342.74	972.23	260.59	-541.79	76.85
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	646.11	646.11	646.11	646.11	646.11
7.	रु. 5/— प्रत्येक के इक्विटी शेयर	12922100	12922100	12922100	12922100	12922100
8.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन भंडार को छोड़क़र, जैसा कि बैलंस शीट में दिखाया गया है)	-	-	-	-2062.35	-1518.03
9.	प्रति शेयर आय (असाधारण मदिंग्से पूर्व) (अंकित मूल्य रु. 10/— प्रत्येक के)			·		
	(अ) मूल	2.65	7.52	2.02	-4.19	0.59
	(ब) तनुकृत	2.65	7.52	2.02	-4.19	0.59
नोर						

उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाइर और कंपनी की वेबसाइट (www.oswaloverseasltd.com) पर उपलब्ध है। उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 30 मई, 2024 को आयोजित उनकी बैठक

चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है जहां पेराई सामान्य रूप से नवंबर और अप्रैल के बीच की अवधि के दौरान होती है. जबकि बिकी परे वर्ष वितरित

की जाती है। कंपनी का प्रदर्शन तिमाही दर तिमाही बदलता रहता है। कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश २०१९ द्वारा यथा घोषित आयकर अधिनियम १९६१ की धारा **११५८८** के प्रावधानों के अनुसरण में

और 11 दिसंबर, 2019 की अधिनियमित कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के रूप में प्रख्यापित किया गया है. घरेल कंपनियों के पास उक्त धारा में निर्दिष्ट कुछ छूटों / कटौतियों ('नई कर व्यवस्था') को छोड़कर रियायती दर पर आयकर का भूगतान करने का विकल्प है। नई कर व्यवस्था के संभावित प्रभाव के आकलन के आधार पर, कंपनी ने मौजूदा कर संरचना को तब तक जारी रखने का निर्णय लिया है जब तव कि कुछ कटौतियां उपलब्ध नहीं हो जाती हैं और संचित न्युनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट काफी हद तक समाप्त हो जाता है और उसवे बाद ऊपर बताए गए अनुसार नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना जाता है।

प्रति ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड हस्ता./ परमजीत सिंह (प्रबंध निदेशक डीआईएन: 00313352

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30.05.2024

श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L21012DL1972PLC279773 पंजीकृत कार्यालयः ४८३० / २४, प्रह्लाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली–110002

वेबसाइटः www.skpmil.com, ई–मेलः info@skpmil.com फोन नं. : 91–11–46263200 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

क्र. सं.	 विवरण	31.03.2024 को समाप्त	31.03.2024 को समाप्त	31.03.2023 को समाप्त	31.03.2023 को समाप्त
4.	1444	तिमाही (लेखापरीक्षित)	वर्ष (लेखापरीक्षित)	तिमाही (लेखापरीक्षित)	वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	3,545.05	14,543.57	4,431.83	17,817.45
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)				
	(कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों से पूर्व)	(52.27)	65.36	122.31	325.96
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)				
	(विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात)	(52.27)	64.38	162.89	1,658.35
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)				
	(विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात)	(22.96)	38.04	71.86	1,256.22
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात)				
	और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल]	(14.65)	38.20	69.17	1,257.09
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10 / – प्रत्येक)	1,352.17	1,352.17	1,352.17	1,352.17
7	आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के	1917	.62	187	79.42
	लेखापरीक्षित तुलन–पत्र में दर्शाए अनुसार	(As at 31.0	3.2024)	(As at 3°	1.03.2023)
8	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) (वार्षिकीकृत नहीं)				
	(क) बेसिक (₹ में)	(0.17)	0.28	0.53	9.29
<u> </u>	(ख) डायल्यूटेड (₹ में)	(0.17)	0.28	0.53	9.29

ये परिणाम कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

ऊपर सेबी (सचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली. 2015 यथासंशोधित के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गये 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.skpmil.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उन्हीं के लिए श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30 मई, 2024

नरेन्द्र कुमार पसारी प्रबंध निदेशक डीआईएन – 00101426



HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

CIN:L74899DL1988PL031191 B-2/8, Safdarjung Enclave, Delhi -110029, Tel 41650347, Fax no. 011-26191358, Email ID: info@bagla-group.com, Website: www.bagla-group.com

	Extract of Standalone & C	Consolid	lated Fin	ancial R	esults fo	r the ye	ar ende	d on 31 st	March,	2024	
				Standalone			Consolidated				
S.	Particulars		Quarter Ende	ed	Year Ended			Quarter Ende	ed	Year Ended	
No.	ſ	31-03-24	31-12-23	31-03-23	31-03-24	31-03-23	31-03-24	31-12-23	31-03-23	31-03-24	31-03-23
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations (net)	7,195	7,116	5,488	30,717	32,503	7,195	7,116	5,488	30,717	32,503
2	Net Profit / (Loss) for the period	1									
	(before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	418	714	57	2,185	583	418	714	57	2,185	583
	Net Profit / (Loss) for the period before Tax										
	(after Exceptional and /or Extraordinary items)	418	714	57	2,185	583	418	714	57	2,185	583
	Net Profit / (Loss) for the period after Tax										
	(after Exceptional and /or Extraordinary items)	376	455	103	1,641	487	376	455	103	1,641	487
5	Total Comprehensive Income for the period										
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)	1	į J	, 1							İ
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	376	455	103	1,641	487	-	-	-	-	
	Equity Share Capital	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown		ſ J								
	in the Audited Balance Sheet of Previous Year)	'			-	-	-	-	-	-	-
	Earnings per share (of Rs.10/-each)	1	(J								
	(for continuing and discontinued operations):	1 - 1	j - J		-	-	-	-	-	-	-
	(a) Basic	7.35	8.89	2.01	32.05	9.51	7.35	8.89	2.01	32.05	9.51
	(b) Diluted	7.35	8.89	2.01	32.05	9.51	7.35	8.89	2.01	32.05	9.51

Note

- The Standalone results for the quarter and year ended 31 March 2024 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on 30th May 2024.
- 2. The figures of the last quarter that ended 31" March 2024 and corresponding quarter that ended 31 March 2023 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year-to-date figures up to the third quarter of the financial year, which were subjected to limited review by the statutory auditors.
- These Standalone results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed unde

Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the relevant rules issued thereunder, other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirements of regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). (Amit Kumar) M. S. Bagla Place : Delhi Director **Managing Directo** DIN- 01425646 Date: 30-05-2024



Extract for Statement of Audited Standalone and Consolidated Financial Statemen of Acme Resources Limited for Quarter and Year ended 31st March 2024 Registered office: 984, 9th Floor, Aggarwal Cyber Plaza – II, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034 [Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] STANDALON CONSOLIDATED

		OUADTE	RENDED YEAR ENDED		ENIDED	OLIABTE	DENDED	YEAR ENDED		
SI.	Particulars		R ENDED			_	R ENDED			
No.		31.03.2024 AUDITED	31.03.2023 AUDITED	31.03.2024 AUDITED	31.03.2023 AUDITED	31.03.2024 AUDITED	31.03.2023 AUDITED	31.03.2024 AUDITED	31.03.2023 AUDITED	
1	Total Revenue									
	from Operations	144.32	2,010.58	706.16	2,706.27	184.18	2,061.42	990.37	2,901.37	
2	Net Profit for the									
	period (before Tax,									
	Exceptional and/or									
	Extraordinary items)	(217.10)	1,185.62	16.81	1,466.38	(196.82)	1,230.76	263.59	1,651.77	
3	Net Profit for the									
	period before tax									
	(after Exceptional									
	and/or Extraordinary									
	items)	(217.10)	1,185.62	16.81	1,466.38	(196.82)	1,230.76	263.59	1,651.77	
4	Net Profit for the									
	period after tax (after									
	Exceptional and/or									
	Extraordinary items)	(160.55)	916.41	(12.89)	1,110.06	(144.08)	945.04	171.03	1,242.14	
5	Total Comprehensive									
	Income for the period									
	[Comprising Profit /									
	(Loss) for the period									
	(after tax) and Other									
	Comprehensive									
	Income (after tax)]	(160.55)		(12.89)	1,110.06	, ,	945.04			
6	Equity Share Capital	2,574.40	2,574.40	2,574.40	2,574.40	2,574.40	2,574.40	2,574.40	2,574.40	
7	Reserves (excluding									
	Revaluation Reserve)									
	as shown in the									
	Audited Balance Sheet									
	of the previous year	-	-	4,318.13	4,331.02		-	10,154.06	9,983.04	
8	Net Worth			6,892.53	6,905.42	٠.	-	12,728.46	12,557.44	
9	Earnings Per Share									
	(for continuing and									
	discontinued operations) - Basic:	(0.62)	3.56	(0.05)	4.31	(0.56)	3.67	0.66	4.82	
	Diluted:	(0.62)	3.56	(0.05)	4.31	(0.56)	3.67	0.66	4.82	
ш	Dilutou.	(0.02)	3.30	(0.05)	4.31	(0.50)	3.07	0.00	4.02	

- The working results for the Quarter Ended March 31, 2024 and Quarte Ended March 31,2023 have been arrived at after considering provisions for Non-Performing and Standard Assets as per Reserve Bank of India guidelines, provision for taxes and other necessary provisions.
- The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 29/05/2024. The above results pertain to Acme Resources Limited on Standalone and Consolidation basis.
- NBFC Business is representing the financing business and sales/purchase of properties & shares are included under 'Property/Share trading'
- Inventory, having book value of Rs. 543.92 lakh has been provisionally attached by Income Tax Department under section 132(9B) of the Incom Tax Act 1961. Accordingly the Company is prohibited from transferring. creating any charge on or parting with possession (by way of sale, mortgage gift exchange or any other mode of transfer whatsoever) of the properties in favour of any other person.
- The above is an extract of the detailed format of financial results for quarter and year ended on 31st March 2024 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, as amended. The full format of Standalone and Consolidated financial results for the quarter and year ended March 31,2024 are available on BSE (www.bseindia.com), CSE (www.cse india.com) and the website of the Company (www.acmeresources.in).

For and on behalf of the Board

मवाना सुगर्स लिमिटेड CIN: L74100DL1961PLC003413 पंजीकृत कार्यालयः पांचवीं मंजिल, कृति महल, 19, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 125 दूरभाष नं.: 91-11-25739103, फैक्स नं.: 91-11-25743659

ई-मेलः corporate@mawanasugars.com, बेवसाइटः www.mawanasugars.com डे-मेल पता तथा अन्य जानकारी

अद्यतन के लिए सदस्यों को सूचना

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी साधारण परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र सं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, परिपत्र सं. 39/ 2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, परिपत्र सं. 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, परिपत्र सं 20/2021 दिनांक 08 दिसम्बर, 2021, परिपत्र सं, 03/2022 दिनांक 05 मई, 2022 तथा परिपत्र सं. 11/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 तथा 25 सितम्बर, 2023 (जिसे सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' कहा गया है) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79, दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ, सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओडीडीएचएस, पी/सीआईआर/2022/0063 दिनांक 13 मई, 2022, सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/ 2023/4, दिनांक 5 जनवरी, 2023 तथा 25 सितम्बर, 2023 क्रमशः (जिसे 'सेबी परिपत्र' कह गया है) के अनुसार कंपनियों को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर वीडियों कांफ्रेंपिंग ('वीजी')(अन्य ऑडियो विजयन साधानों ('ओएवीएम') के जरिए वार्षिक साधारा आम बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम' तथा एमसीए परिपत्र तथा सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनसार कंपनी की आगामी 60वीं एजीएर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शनिवार, 6 जुलाई, 2024 को पूर्वाहन 11.00 बजे (भामास) आयोजित होगी। अतएव. सदस्यगण सिर्फ वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल

ऊपर उल्लेखित एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार 60वीं एजीएम की सूचना के साथ वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उन सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनके ई-मेल का पता कंपनी/पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट ('आरटीए') अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी')/डिपॉजिटरी के साथ **पंजीकृत हैं।** कंपनी पहले की तरह ही अपने सभी सदस्यों को एजीएम^{ें}के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है।

हो सकते हैं एवं उसमें भाग ले सकते हैं।

आपका ईमेल अगर पहले से ही कंपनी/आरटीए अथवा डीपी/डिपॉजिटरी के साथ पहले ही पंजीकृत है. तो एजीएम की सचना के साथ वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा ई-वोटिंग के लिए लॉगइन का विवरण आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेज दिए जाएंगे। अगर आपका ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए अथवा डीपी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, तो सचना, वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा ई-वोटिंग के लिए लॉगइन का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल पता के पंजीयन के लिए कपया नीचे उल्लेखित निर्देशावलियों का अनग्ररण करें।

१-मल पता तथा ब	क खाता क पंजाकरण/अद्यतन का विवरणः
भौतिक	कंपनी के आरटीए यानी एमएएस सर्विसेस लिमिटेड, पता टी-34, दूसरी
प्रारूप	मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II, नई दिल्ली 110 020 के पास
में धारण	भलीभांति भरे हुए प्रपत्र सं. आईएसआर-1 पर अनुरोध भेजें, जिसे कंपनी
रहने पर	की वेबसाइट www.mawanasugars.com के अधीन इंवेस्टर रिलेशन
	टैब के साथ आरटीए की वेबसाइट यानी www.masserv.com के
	अधीन डाउनलोड टैब से डाउनलोड किया जा सकता है। आप डिजिटल
	हस्ताक्षर के साथ प्रपत्र सं. आईएसआर-1 आरटीए के ईमेल आईडी
	investor@masserv.com पर कंपनी के corporate@mawana
	sugars.com पर उसकी प्रतिलिपि भेज सकते हैं।
0 " "	() () () () () () () () () ()

धारण रहने पर अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाते के विवरण का पंजीयन कराएं। ई-वोटिंग जानकारी से रिमोट ई-वोटिंग की सविधा प्रदान करेगी। एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे संबंधित विवरण एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी तथा कंपनी[ँ]की वेबसाइट यानी <u>www.mawanasugars.com</u> पर भी उपलब्ध

कराई जाएगी। एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइटwww.mawanasugars.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध होंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम के उद्देश्य के लिएवीसी/ओएवीएम वे

माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी। किसी भी तरह के प्रश्न के लिए सदस्यगण कंपनी को प्रतिलिपि चिन्हित कर ऊपर उल्लेखित पता तथा ई-मेल आईडी पर आरटीए को लिख अथवा सम्पर्क कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि सेबी परिपत्र दिनांक 03/11/2021 एवं दिनांक 16/03/2023 के अनुसार . सभी लभांशों का भुगतान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में किया जाएगा। अगर आपने अपने बैंक के ब्यौरे का अद्यतन नहीं कराया है, तो कृपया उसे दिनांक 29,06/2024 अथवा उससे पहले अद्यतन करवा लें। अगर आपका शेयर भौतिक प्रारूप में धारण है, तो कृपया आरटीए के पास मूल रद्द चेक के साथ आईएसआर-1 भर कर अपना बैंक का ब्यौरा प्रदान करें। अगर आपका शेयर डिमैट प्रारूप में धारण है, तो कृपया अपने डीपी के साथ अपने बैंक का ब्यौरा का अद्यतन कराएं। कृते मवाना सुगर्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 30.05.2024

(अशोक कुमार शुक्ला) कंपनी सचिव एसीएसः 29673

Date: 29/05/2024